



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122]

नई दिल्ली, सोमवार, चैत्र 19, 1982/चैत्र 29, 1904

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 1982/CHAITRA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1982

सं. 117/82-सीमा-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th April, 1982

No. 117/82-Customs

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coal tar pitch, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of May, 1983.

[F. No. 355/82-Cus-I]

सं. 118/82-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 322(अ) :—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1962 के खण्ड 44 के उप-खण्ड (4), के जो खण्ड अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल रखता है,

सा. का. नि. 321(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, कोलतार पिच पर जब उसका भारत में आयात किया जाए, उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा उक्त द्वितीय विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मई, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 355/82-सी. श. -1]

No. 118/82-CUSTOMS

साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 60/82-सीमा-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 210 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“211 सं. 117 सीमा-शुल्क तारीख 19-4-1982।”

[फा. सं. 355/8/82-सीमा-शुल्क-1]

की. चन्द्रमौलि, उप-सचिव

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60/82-Customs dated the 28th February, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 210 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :—

“211 No. 117 Customs, dated the 19th April, 1982”.

[F. No. 355/8/82-Cus.-I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.